

>

Title: Need to send a team of experts to look into the pollution of water affecting the health of people in Pali Parliamentary Constituency of Rajasthan.

**श्री पी.पी.चौधरी (पाली) :** माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र पाली की गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की बांड़ी नदी व नेहड़ा बांध लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। वर्तमान में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पीने के लिए भू-जल खराब हो चुका है। पानी के किनारे बसने वाले पशु पक्षी भी नगण्य के बराबर दिखते हैं। यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में भी निरंतर गिरावट देखी जा सकती है। पाली जिले के किसानों की जमीन बंजर होती जा रही है। यदि उस जमीन पर कुछ उग भी जाता है तो उसकी गुणवत्ता बहुत ही निम्न किस्म की होती है, जिसे बाजार भाव में बेचा जाना संभव नहीं होता है।

राज्य पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहां विचरण करने वाले पशुओं में बांझपन, प्रतिरोधक क्षमता व उत्पादन क्षमता में कमी आदि दर्ज की गयी हैं। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण करने के अनेकों उपायों पर विचार किया जा चुका है, जो काफी नहीं रहे हैं। इस समस्या का निदान जीरो एलडी का प्लांट स्थापित करने से किया जा सकता है, लेकिन उसकी लागत बहुत अधिक है। राज्य सरकार और औद्योगिक इकाइयां इसे वहन करने में असक्षम हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक बजट जारी करने के बाद ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा एक विशेषज्ञों की टीम को राजस्थान के पाली जिले में भेजा जाए ताकि पाली जिले की इस गंभीर समस्या को दूर करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जा सके।